

Date: 31-08-2024

To

Manager, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex- Bandra (E), Mumbai-400051 NSE Symbol: HITECH	Listing Department, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Rotunda Building, Dalal Street, Fort Mumbai- 400001 Scrip Code: 543411
--	--

Sub: Copy of Newspaper Publication regarding completion of dispatch of Notice of 40th Annual General Meeting and Annual Report for FY 2023-24.

Dear Sir/ Madam,

In terms of Regulation 30, 47 and other applicable Regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), please find enclosed herewith copy of Newspaper Publication published by the Company in "**Business Standard**" (English and Hindi edition) **dated 30th August, 2024** related to completion of dispatch of Notice of 40th AGM along with Annual Report for FY 2023-24 to the members of the company and other persons so entitled.

The above information is also available on website of the company www.hitechpipes.in.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Hi-Tech Pipes Limited

For HI-TECH PIPES LIMITED

Company Secretary

Arun Kumar

Company Secretary & Compliance Officer

कार्यालय
कार्यालय अभियन्ता का कार्यालय
लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा

CORRIGENDUM

अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या—MID/CHAIBSA/F2-03/2024-25 जिसका PR-NO- 333488 West Singhbhum (2024-25).D के माध्यम से प्रकाशित की गई थी के कंडिका 23(a) Achieved a minimum annual turnover (in all cases of civil engineering construction works only) amount in any one year not less than one & half times the estimated cost of the project.(Applicable for tender amount more than one crore only) के स्थान पर 23(a)Achieved a minimum annual turnover (in all cases of civil engineering construction works only) amount in any one year not less than 60% of the estimated value of the contract.(Applicable for tender amount more than one crore only) पढ़ा जाय।

अन्य सभी शर्तें पूर्वतः रहेगी। **कार्यालय अभियन्ता**
लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा
 PR 334076 (West Singhbhum)24-25*D

फेडरल बैंक Canara Bank Branch Office- Main Road, Near Bajoria Kotni, Fathepur Shekhawati (2467), E-mail: cb2467@canarabank.com

SALE NOTICE- PUBLIC NOTICE FOR SALE OF VEHICLES UNDER HYPOTHECAION THROUGH E-AUCTION

Notice of the auction is hereby given to the effect that Secured Creditor Canara Bank, Main Road, Near Bajoria Kotni, Fathepur Shekhawati Branch, Fathepur Branch has taken the possession of the under mentioned vehicle and will be sold through E-Auction on the following terms & Conditions. M/s Antares System Limited Through The website www.bankauctionwizd.com; Date and time of auction: 30.09.2024 between 2:00 PM to 3:00 PM with unlimited auto extensions of 5 Minutes. Last Date for bid & document submission: 27.09.2024 - by 5.00 PM.

Name of the Borrower	Assets/Vehicle details	Total liabilities	Reserve Price EMD Amount
Shri Mohit Bhinda S/o Shri Parameshwar Lal Bhinda	Mahindra Supro Maxitruck 14 Regd. No. RJ-23-G8-7730 Chassis No. MA1F12HJLWJ6H2449 Engine No. HLJ6H38622 Model: 2018	As on 27.08.2024 Rs. 1,85,000/- + interest & other expenses thereon	Rs. 18,500/-

Other terms and conditions: 1. The vehicles will be sold in "AS IS WHERE IS CONDITION", including encumbrances if any. 2. The auction sale will be online (e-auction) through the website www.bankauctionwizd.com. 3. The vehicles can be inspected on or before 27.09.2024 between 11.00 AM to 5.00 PM through concerned branch, RO-Bikaner or contact the bank authorized Enforcement Agency M/s Lakshita Enterprises No. 9829437170. 4. The vehicles will not be sold below the Reserve Price and the participating bidders may improve their offer further during auction process, the amount by which bidding area to be increased will be Rs. 500/- incremental bid amount in multiple. 5. Bidders are advised to go through the website www.bankauctionwizd.com for detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids and taking part in e-auction proceedings. 6. Prospective bidders if required may avail online training on e-auction from M/s Antares System Limited Registered Office # 137/3, Hanganasari Kengeri, Bangalore Mysore Road, Bangalore-560060, India, Mr. Kushal Bose Contact No. 9674758719. Email id: bankauctions@tenderwizd.com. EMD shall be deposited by way of DD favouring Canara Bank Main Road, Near Bajoria Kotni, Fathepur Shekhawati Branch OR through online (RTGS NEFT Fund Transfer) to credit of account number 299272434 Canara Bank, Sri Madhupur Branch E-Payment on or before 27/09/2024 by 5.00 PM. 8. Bids shall be submitted through on line in the prescribed format with relevant details. 9. A copy of the bid form along with the enclosure submitted online shall forwarded to the respective Authorized Officer Main Road, Near Bajoria Kotni, Fathepur Shekhawati Branch to be contact No. 9829437170. 10. Sale shall be confirmed in favour of the successful bidder, subject to confirmation of the same by the secured creditor. 11. The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. 12. If the successful bidder fails to pay the sale price within the period stated above, the deposit made by him shall be forfeited. 12. All charges for conveyance, stamp duty and registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder only. 13. Authorized Officer reserves the right to postpone/cancel or vary the terms and conditions of the tender without assigning any reason thereof. 14. The intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax Department and his/ her identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Driving license.

Date: 27.08.2024 Place: Fathepur Shekhawati Authorized Officer, Canara Bank

फेडरल बैंक Canara Bank Branch Office-WARD NO. 11, ABADI LAND OF MUNICIPAL BOARD, SRI MADHUPUR(5440), E-mail: cb5440@canarabank.com

SALE NOTICE- PUBLIC NOTICE FOR SALE OF VEHICLES UNDER HYPOTHECAION THROUGH E-AUCTION

Notice of the auction is hereby given to the effect that Secured Creditor Canara Bank, ward No. 11, Abadi Land of Municipal Branch, Branch has taken the possession of the under mentioned vehicle and will be sold through E-Auction on the following terms & Conditions. M/s Antares System Limited Through The website www.bankauctionwizd.com; Date and time of auction: 30.09.2024 between 2:00 PM to 3:00 PM with unlimited auto extensions of 5 Minutes. Last Date for bid & document submission: 27.09.2024 - by 5.00 PM.

Name of the Borrower	Assets/Vehicle details	Total liabilities	Reserve Price EMD Amount
Priyanka Khurana address Ward No-17 Saray wala Kohalla, Punjab Mandir ke pass, Sri Madhupur District-Sikar Rajasthan-332715	Active-6G LED Regd. No. RJ-23-US-6084 Chassis No. MEAF18KMMW046365 Engine No. JF91EWS046428 Model: 2021	As on 27.08.2024 Rs. 15,257/- + interest & other expenses thereon * Other liability of Rs. 12,44,862.88 + interest & other expenses thereon	Rs. 45,000/- Rs. 4,500/-

Other terms and conditions: 1. The vehicles will be sold in "AS IS WHERE IS CONDITION", including encumbrances if any. 2. The auction sale will be online (e-auction) through the website www.bankauctionwizd.com. 3. The vehicles can be inspected on or before 27.09.2024 between 11.00 AM to 5.00 PM through concerned branch, RO-Bikaner or contact the bank authorized Enforcement Agency M/s Lakshita Enterprises No. 9829437170. 4. The vehicles will not be sold below the Reserve Price and the participating bidders may improve their offer further during auction process, the amount by which bidding area to be increased will be Rs. 500/- incremental bid amount in multiple. 5. Bidders are advised to go through the website www.bankauctionwizd.com for detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids and taking part in e-auction proceedings. 6. Prospective bidders if required may avail online training on e-auction from M/s Antares System Limited Registered Office # 137/3, Hanganasari Kengeri, Bangalore Mysore Road, Bangalore-560060, India, Mr. Kushal Bose Contact No. 9674758719. Email id: bankauctions@tenderwizd.com. EMD shall be deposited by way of DD favouring Canara Bank, ward No. 11, Abadi Land of Municipal Board Sri Madhupur Branch OR through online (RTGS NEFT Fund Transfer) to credit of account number 299272434 Canara Bank, Sri Madhupur Branch E-Payment on or before 27/09/2024 by 5.00 PM. 8. Bids shall be submitted through on line in the prescribed format with relevant details. 9. A copy of the bid form along with the enclosure submitted online shall forwarded to the respective Authorized Officer Canara Bank, ward No. 11, Abadi Land of Municipal Board Sri Madhupur Branch Contact No. 982959099. 10. Sale shall be confirmed in favour of the successful bidder, subject to confirmation of the same by the secured creditor. 11. The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. 12. If the successful bidder fails to pay the sale price within the period stated above, the deposit made by him shall be forfeited. 12. All charges for conveyance, stamp duty and registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder only. 13. Authorized Officer reserves the right to postpone/cancel or vary the terms and conditions of the tender without assigning any reason thereof. 14. The intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax Department and his/ her identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Driving license etc.

Date: 27.08.2024 Place: Sri Madhupur Authorized Officer, Canara Bank

POSESSION NOTICE **DCB BANK**

The undersigned being the authorized officer of the DCB Bank Ltd., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on below mentioned dates calling upon the borrowers (Borrower's & Co-Borrower's) to repay the amount mentioned in the notice as detailed below in tabular form with further interest thereon from within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower and Co-Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 also r/w section 14(1) of the Security Interest Rules 2002 as mentioned here below.

The borrower, Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property (Description of the Immovable Property) and any dealings with the property will be subject to the charge of the DCB Bank Ltd., for respective amount as mentioned here below. The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

1)	Symbolic Possession Date 28th August, 2024
Demand Notice Dated.	22-03-2024
Name of Borrower(s) and (Co-borrower(s))	MR. MOHAMMAD AKHTAR and MRS. ZAHIDA W/O MR. MOHAMMAD AKHTAR
Loan Account Number	DRHLDH04061556
Total Outstanding Amount.	Rs.15,21,342.51/-Rupees Fifteen Lakh Twenty-One Thousand Three Hundred Forty Two and Fifty One Paisa Only) as on 22nd March 2024
Description Of The Immovable Property	ALL THAT FIRST FLOOR PROPERTY FORMING PART OF PROPERTY BEARING NAGAR NIGAM NO. 30 RAJA ROAD, DEHRADUN MEASURING 41.07 SQ. MTS. OF WHICH COVERED AREA 34.57 SQ. MTS. ALONGWITH RIGHTS OF EGRESS & INGRESS FROM THE GROUND FLOOR TO THE FIRST FLOOR BOUNDED AND BUTTED AS UNDER- EAST: 30 FT. WIDE RAJA ROAD, WEST: OPEN COMMON SPACE & STAIRS, NORTH: PROPERTY OF SHRI ANAND PRAKASH JAIN, SOUTH: 20 FT. WIDE PASSAGE AT GROUND FLOOR (The Secured Assets)
2)	Symbolic Possession Date 28th August, 2024
Demand Notice Dated.	06-06-2024
Name of Borrower(s) and (Co-borrower(s))	MR. TARAMEEN TARAMEEN and MRS. GULNAZ
Loan Account Number	DRMBDEH0498929
Total Outstanding Amount.	Rs.12,12,347.56/-Rupees Twelve Lakh Twelve Thousand Three Hundred Forty Seven and Fifty Six Paisa Only) as on 5th June 2024
Description Of The Immovable Property	ALL THE PIECE & PARCEL OF LAND KHATA KHATONI 944 KHASARA NO 618 KHA ADMESURING 5.20 SQ MTRS MOJ. KARGI PARGANA PUCHAWADUN DIST: DEHRADUN BOUNDED BY- TOWARDS EAST: LAND OF MARGUB, TOWARDS WEST: 15 FEET ROAD, TOWARDS NORTH: LAND OF MARGUB, TOWARDS SOUTH: LAND OF JULFIKAR KHAN (The Secured Assets)
Date :-30.08.2024	FOR DCB BANK LTD, AUTHORIZED OFFICER
Place :Dehradun	

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069

Netaji Subhash Place Branch : 712, 7th Floor, GD-ITL Tower, Plot No. B-08, Netaji Subhash Palace, Near D-Mall, Pitampura, New Delhi-110034

Haridwar Branch : 1st Floor, Hotel Satkar, Opp Geet Govind Banquet Hall, Near Ranipur Modh, Delhi Road, Jwalpur, Haridwar-249407, Uttarakhand

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)(Name of the Branch)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1	(Loan Code No. 34810000171/ Netaji Subhash Place Branch) Late Kalpesh Kumar (Represented through their legal heir) (Borrower), Arti (Co-Borrower)	All that part & parcel of property bearing, 3rd Floor, Front Southern RZF-769/9 Gali No. 11 Raj Nagar-2 Palam South West Delhi 110045. Boundaries: East- Property No. RZ-769/6B, of Sohan Singh, West-legal heir) (Borrower), Arti (Co-Borrower)	10-06-2024 & ₹ 22,37,195/-	28-08-2024
2	(Loan Code No. 08500001183/ Haridwar Branch) Late Chandrma (Represented through their legal heir) (Borrower), Ramakant Kushwaha (Co-Borrower)	All that part & parcel of property bearing, Plot No 24 Kh No 1590 M Krishna Vihar Colony, Vill Salempur Mahdood 2 Haridwar, Uttarakhand- 249403 Boundaries: East- Land of Seller, West- Land of Shri Shubhash Chauhan, North- Way 20 Feet Wide, South- Land of Sardar	11-07-2023 & ₹ 7,23,904/-	27-08-2024
3	(Loan Code No. 08500000516 / Haridwar Branch) Waseem Akram (Borrower), Saina Praveen (Co-Borrower), Sarfaraj Vaheed (Guarantor)	All that part & parcel of property bearing, House at Kh No 50 1 Atika Vihar Colony Dadupur Govindpur Par Roorkee, Haridwar, Uttarakhand- 249403 Boundaries: East- Godown, West- Rasta 20 Ft Wide, North - House of Mr. Sakel, South- House & Plot	10-06-2024 & ₹ 6,57,359/-	27-08-2024

Place : Uttar Prades / Uttarakand
Date : 30.08.2024

Authorised Officer
Aadhar Housing Finance Limited

Hi-TECH STEEL PIPES LIMITED

Regd. Office: No. 505, Pearls Omaxe Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034
 CIN: L27202DL1985PLC019750, Email: info@hitechpipes.in, Website: www.hitechpipes.in

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

1. NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on **Saturday, 21st day of September, 2024 at 11:30 A.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set forth in the Notice of 40th AGM. The venue of the meeting shall have deemed to be the Registered Office of the Company at 505, Pearls Omaxe Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi- 110034.

2. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No.20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and General Circular 09/2023 dated 25 September 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA/Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in furtherance of Go Green Initiative of Govt., the Company has e-mailed the Notice of the 40th AGM along with the Annual Report for the FY 2023-24 on Thursday, 29th August, 2024 through electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agent or Depository Participant.

The requirement of sending physical copies of the Notice of AGM and Annual Report has been dispensed with aforesaid circulars.

3. The Annual Report for the FY 2023-24 and the Notice of the 40th AGM has also been available on the website of the Company www.hitechpipes.in and on the website of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com).

4. The Final Dividend of Rs. 0.25/- per equity share for the FY. 2023-24, was recommended by the Board of Directors in their meeting held on May 11, 2024 for the approval by Shareholders at 40th AGM.

The Board has fixed **Saturday, September 14, 2024 as "Record Date"** for determining entitlement of the members to final dividend for FY 2023-24. The Dividend, if declared at the 40th Annual General Meeting, will be paid within 30 days from the date of AGM i.e. September 21, 2024, to the Members who have updated their bank account details with the Depositories in case of shares held in Demat mode and with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, in case shares are held in physical mode. For Members, who have not updated the bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to the registered addresses by permitted mode.

5. Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

In compliance to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the Company is providing the members the facility to exercise their right to vote at the 40th AGM by electronic means only before the AGM and during the proceedings of the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose the Company has availed the e-voting services of National Securities Depository Limited (NSDL).

6. The detailed instructions for the e-voting are given in the Notice of the AGM, Members are requested to note the following:

- The Remote e-voting shall be commencing on **Wednesday, 18th September, 2024 at 09:00 a.m.** and shall end on **Friday, 20th September, 2024 at 05:00 p.m.** The e-voting module shall be disabled by NSDL for the voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
- The voting rights of the Members (for remote e-voting or voting during the AGM) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the company as on **Saturday, 14th September, 2024 ("Cut-Off Date")**. A person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owner maintained with by the Depository as on the Cut-Off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as the voting during the AGM.
- Any person, who acquires the shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holds shares as on the Cut-Off date i.e. Saturday, 14th September, 2024 may obtained the login ID and password by following the procedure given in the Notice of the AGM. However, if a person is already registered with NSDL for e-Voting can use existing User ID and password for casting the votes during through remote e-voting/e-voting during the AGM.
- Facility of voting through electronic voting system shall also be made available during the proceeding of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM, who have not casted their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right during the AGM by following the procedure given in the Notice of the AGM.
- Members who have already casted their vote by remote e-voting prior to the AGM, will be eligible to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote again on such resolution(s).

For any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in

7. The Board has appointed **M/s. NSP & Associates, Practicing Company Secretary as Scrutinizer for scrutinizing** the remote e-voting process and the voting during the AGM, in the fair and transparent manner.

8. The results of the remote e-voting and votes cast during the AGM shall be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizer Report, shall be placed on the Company's website www.hitechpipes.in and will be communicated to the Stock Exchanges and be available on their websites www.nseindia.com and www.bseindia.com

9. Transfer of Unclaimed/Unpaid Dividend to Investor Education Protection Fund (IEPF): Members are requested to note that, dividends if not encashed for a period of 07 years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account of the Company, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). The shares in respect of such unclaimed dividends for 07 consecutive years are also liable to be transferred to the Demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members/Claimants are requested to claim their unpaid/unclaimed dividends from FY 2016-17 till date, on or before October 30, 2024. For details, please refer to the Shareholder Information investor page on the Company's website www.hitechpipes.in

By Order of the Board
For Hi-Tech Pipes Limited
 Sd/-
Arun Kumar
 Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 29.08.2024

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that our client, M/s. Muthoo Finance Ltd. (GSTIN 32AABCT03438127), Registered Office: 2nd Floor, Muthoo Chambers, Banerji Road, Kols-682018, Kerala, India CIN: L65910K11997PCL011300, Ph: +91 484-2396478, 2394712, Fax: +91 484-2396506 mails@muthoogroup.com, www.muthoofinance.com is conducting Auction of ornaments (NPA accounts for the period up to 31.03.2023 & 100 Tounch /Low quality/Insufficient weight deduction accounts for the period up to 31.03.2024), pledged in its favour, by the defaulting Borrowers, as detailed hereunder. All those interested may participate.

First Auction Date: 06.09.2024

Jalore-(RA) (3466): MDL-173, 252, 263, MDL-2874, RGL-908, 1089, 1243, 1268, 1300, 1396, 1404, 1412, 1415, 1427, 1432, 1438, 1441, 1457, 1505, 1523, 1565, 1783, 1800, SRS-13, Bheenal-(RA) (4589): MDD-15, MDL-139, 154, 172, 188, RGL-680, 1034, 1072, 1230, 1307, 1430, SRS-40

Low Tounch /Low quality/Insufficient weight deduction: Jalore-(RA) (3466): MUL-3534, Bheenal-(RA) (4589): MHP-326

Second Auction Date: 07.09.2024, Auction Centre: Muthoo Finance Limited, First Floor, Shop No-110-111 & 122-123, City Centre , Nera Haridev Joshi Circle , Bagoda Road, Jalore-Rajasthan-343001

First Auction Date: 06.09.2024

Pali-(RA) (2330): MAL-2364, MDL-1069, 1090, 1121, 1122, 1180, 1186, 1216, 1269, 1314, 1382, 1500, 1561, 1567, 1616, 1643, 1780, MUL-4387, 4580, 4581, 4675, 4821, 4912, 4983, 5028, 5217, 5218, 5228, 5229, 5251, 5255, 5296, 5304, 5314, 5323, 5379, 5388, 5406, 5407, 5426, 5433, 5442, 5455, 5479, SRS-8, 32, Sumerpur-(RA) (2900): MDL-516, 660, 690, MDL-3655, 3657, 3662, RGL-948, 1002, 1210, 1377, 1503, 1594, 1616, 1846, 1855, 1864, 1868, 1997, 2076, 2209, 2214, 2416, 2469, 2495, 2532, 2535, SRS-11, 71, Pali-Main Mandia Road (2923): MDL-784, 909, MUL-2402, 3746, 3905, 3909, 3958, 3979, 4007, 4009, 4012, 4034, 4051, SRS-31, 90, Sojat City-(RA) (3465): MDL-597, 655, RGL-2156, 2196, 2315, 2344, 2456, 2628, 2692, SRS-34, 35, 55, 59, 60, 61, 62

Second Auction Date: 09.09.2024, Auction Centre: Ground Floor, Maq Plaza, Opposite Bangur Hospital, Surajpole Road, Pali-306401

First Auction Date: 06.09.2024

Jodhpur-Rajasthan (1112): MAL-3677, MDL-2272, 2560, 3540, MEG-838, 894, MHP-410, MUL-12545, 12603, 13244, 13267, 13625, 13675, 13686, 13706, 13738, 13789, 13806, 13824, 13837, 13870, 13891, 13900, 13908, 14006, Jodhpur-Chopasani Road (1285): MDD-18, 35, MEG-629, MUL-21082, 21320, 21474, 21765, 21873, 21903, 21940, 21976, 21985, 21997, 21998, 22016, 22017, 22053, 22058, 22062, 22081, 22118, 22219, SRS-157, 186, 187, 206, 232, 360, 365, 366, 494, 509, 516, 531, 536, TMS-31, 32, Jodhpur-Paota Road (1595): MDL-1906, MUL-9581, 9678, 9921, 10086, 10133, 10198, SRS-10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, Phalodi (RA) (2949): MDL-5617, RGL-3336, 3367, 3694, Jodhpur-Akhliya Circle (2972): MDL-3388, MEG-427, MUL-11529, 11531, 11533, 11534, 11627, 11864, 11865, 11866, 12209, 15391, 15939, 16630, 16696, 16778, 16779, 17040, 17048, 17133, 17251, 17320, 17332, 17472, 17498, 17645, SRS-19, 92, 98, TMS-13, 20, Jodhpur-Sardarpura (3065): MEG-132, 155, MUL-3110, 3796, 5108, 5128, 5321, 5376, 5487, 5489, 5635, 5685, 5686, 5727, 5754, 5761, 5781, 5801, SRS-42, 53, 58, 65, 77, 125, 149, Jodhpur-Saraswati Nagar (3926): MUL-10324, 10366, 10538, Jodhpur-Mandora Road (4054): MDD-21, MDL-1278, 1607, 1957, MUL-9633, 9894, 10054, 10205, 10332, 10477, 10517, 10538, 10566, 10571, 10622, 10643, 10671, 10748, Jodhpur-Ratanada Road (4252): MDD-4, MDL-1736, MEG-95, 268, MUL-10215, 10219, 10705, 11067, 11141, 11169, SRS-8, 16, 61, 90, 92, 95, 100, 119, 174, 307, Bilara-(RA) (4764): RGL-1084, Jodhpur-Banar Road-(RA) (4917): MDD-60, MEG-319, Jodhpur-Pal Bypass (5149): MDL-161, 191, MEG-280, MUL-437, 535, 652

Second Auction Date: 10.09.2024, Auction Centre: Second Floor, Plot No 46, Opp New Kohinoor Cinema, Akhalya Circle, Jodhpur, Rajasthan-342001

First Auction Date: 06.09.2024

Jaisalmer (4625): MDL-545, RGL-1746, 1831, 1838, 1915, 2018, 2145, 2156, 2205, 2352, 2384, 2543, 2551, 2575, 2608, 2768, 2927, SRS-6, 7, 27, 31, 100, 230, 231, 232, Pokaran (RA) (4665): MDL-108, 113, MUL-1280, 1286, 1287, 1293, RGL-713, 814, 860, 924, 940, 947, 970, 1003, SRS-2, 3, 34, 54, 96

Low Tounch /Low quality/Insufficient weight deduction: Jaisalmer (4625): MDL-1215

Second Auction Date: 11.09.2024, Auction Centre: Muthoo Finance Ltd, First Floor, Plot No. 10, Opp. Geeta Ashram, Near Hanuman Chauraha, Jaisalmer, Rajasthan-345001

First Auction Date: 06.09.2024

Barmer-Nehru Nagar (2897): MDL-642, 671, 691, MEG-27, MUL-4809, 4833, RGL-362, 1860, 1866, 1938, 2020, 2086, 2116, 2155, SRS-13, 92, Balotra (RA) (2968): MDL-600, 617, 669, 679, MEG-25, RGL-1899, 2003, 2079, 2138, 2143, 2153, 2154, 2159, 2174, 2179, 2193, 2294, 2413, Barmer Station Road (RA) (2971): MDL-423, 464, 487, 495, MEG-33, 59, 60, RGL-408, 1181, 1442, 1477, 1552, 1567, 1590, 1645, 1662

Low Tounch /Low quality/Insufficient weight deduction: Barmer Station Road (RA) (2971): MDL-818

Second Auction Date: 12.09.2024, Auction Centre: Muthoo Finance Limited , Ground Floor, Gopal Hotel Complex, Jodhpur Road , Nehru Nagar , Barmer, Rajasthan-344001

The auctions in respect of the loan accounts shown under the branch head will be conducted at the respective branches.

However, please note that in case the auction does not get completed on the given date(s), then in that event the auction in respect thereto shall be conducted/continued on **Second Auction date at given auction centre**, and further in case the said ornaments are still not successfully auctioned on these dates then such auction shall be continued on subsequent days thereafter, at this same venue. No further notices shall be issued in this respect.

Kohli & Sobti, Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024

Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: recoverynorth@muthoogroup.com or Call at 7834868464, 7994452461

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Office Address: 167-169, 2nd Floor, Little Mount, Saidapet, Chennai, Tamil Nadu, India: 600015

APPENDIX -IV A (Refer proviso to rule 6 (8)) SUBSEQUENT SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act") read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred to as "the Rules"). Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s), Co-Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Hinduja Housing Finance Limited (Secured Creditor) having its Corporate Office at 167-169, 2nd Floor, Little Mount, Saidapet, Chennai - 6

SANDHAR
Growth. Motivation. Better Life
SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED
CIN: L74999DL1987PLC029553
Regd. Office: B-6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave New Delhi - 110029
Ph: +91-124-4518900 Fax No.: +91-124-4518912
Website: www.sandhargroup.com, Email: investors@sandhar.in

NOTICE

1. Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of Sandhar Technologies Limited (the "Company") is scheduled to be held on Tuesday, the 24th September, 2024 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Secretarial Standard-2 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), without the physical presence of the members to transact the Ordinary and Special Business as set out in the AGM Notice.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-2024 has been sent through e-mail to all the members whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depositories/ Depository Participants and Link Intime India Private Limited (the "Registrar"). The emailing of all Notices along with the Annual Report has been completed on Thursday, 29th August, 2024. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility at <https://instameet.linkintime.co.in/>

2. In terms of Section 108 of the Act, read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members with the remote e-voting facility to cast their vote electronically on the Resolution(s) mentioned in the AGM notice using electronic voting platform provided by the Registrar. In case, the member is unable to cast his/her vote on the facility of electronic voting platform provided by the Registrar, they may exercise their vote through instavote facility during the AGM. The Board has appointed K Sachdeva & Associates, Company Secretaries, as scrutiner for scrutinizing the e-voting process in a fair and transparent manner. The members may note the following:

- Members holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 17th September, 2024 may cast their vote electronically on business as set out in AGM Notice through such remote e-voting.
- Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company after sending the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 17th September, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request to Registrar. However, if you are already registered with the Registrar for remote e-voting then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
- The remote e-voting period begins at 09:00 A.M.(IST), on Saturday, the 21st September, 2024 and will end at 05:00 P.M.(IST) on Monday, the 23rd September, 2024. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled by the Registrar for voting thereafter.
- Any person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depository as on cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or through instavote facility during the AGM.
- Members who have already cast their vote through remote e-voting, prior to the AGM, will be eligible to attend/ participate in the AGM through InstaMeet. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.
- Members may note that the Notice of AGM and the Annual Report for Financial Year 2023-2024 are also available on the Company's website <https://sandhargroup.com/investors/annual-reports> as well as on the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Registrar at <https://instavote.linkintime.co.in>.
- In case members have any queries regarding e-voting/ attending the meeting through VC, they may refer the Frequently Asked Questions and InstaVote e-voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact Mr. Rajiv Ranjan, AVP, E-voting, Link Intime, C-101, 247 Park, La Bahadur Shastri Rd, Surya Nagar, Gandhi Nagar, Vikhroli West, Mumbai, Maharashtra 400083. Tel: 022 - 4918 6000.
- Members may note that in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a Company after the 01st April, 2020 shall be taxable in the hands of members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source ("TDS") at the time of making the payment of dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The details about tax rates, documents required for availing the applicable tax rates are provided in the notice of the AGM.

3. The results on resolutions shall be declared not later than 2 working days from the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at www.sandhargroup.com and on the Registrar's website at <https://instavote.linkintime.co.in> and the same shall be simultaneously communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

3. **BOOK CLOSURE:** Pursuant to Section 91 and other applicable provisions of the Act and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, the 18th September, 2024 till Tuesday, the 24th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and to determine the eligibility of the members for the payment of the final dividend for the Financial Year 2023-2024.

Members are requested to carefully read all the Notes as set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting vote through Remote e-voting or through instavote facility during the AGM.

By order of the Board of Directors
For Sandhar Technologies Limited

Date: 29th August, 2024
Place: Gurugram, Haryana
Yashpal Jain
Chief Financial Officer and Company Secretary
M. No. A13981

पंजीकृत कार्यालय :- छात्रा ताल, टावर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बागट मार्ग, लोजर परेल, मुंबई-400013
सुदूर आरिस्टि समाहरण विभाग :- डीसीबी बैंक लिमिटेड, सेलेक्टिव, ऑफ नंबर 302, तुलीय तल, एफसी रोड, निक्ट प्रोडिंस मैदान, ललित महल होटल के सामने, शिवाजी नगर, पुणे-411005

डीसीबी बैंक

सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप निम्नलिखित कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) ने अपनी अवल सम्पत्तियां (प्रतिभूतियां) बंधक रखकर डीसीबी बैंक लिमिटेड से ऋण सुविधा(ए) प्राप्त की है। आपके द्वारा ऋण चुकाने में चूक के फलस्वरूप आपके ऋण अनाजक आरिस्टियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। डीसीबी बैंक लिमिटेड ने बकाया राशि की वसूली के लिए वित्तीय आरिस्टियों का प्रतिक्रियण और पुनर्नाम तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी, जिसकी विषयवस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार आपको सूचना देने के निमित्त प्रकाशित की जा रही है। कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों), बंधक सम्पत्तियां, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत प्रेषित मांग सूचना और उसमें मांग की गई राशि निम्नानुसार है :

क्र. सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार/ गारंटर का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण राशि	प्रतिभूत सम्पत्ति का पता	1) मांग सूचना तिथि 2) बकाया राशि 3) एनपीए तिथि
1.	1. श्री एच.ए.ए. 2. श्री जय सिंह 3. श्रीमती चरिता सभी का पता :- सॉफ्ट नंबर 10, बीपीओ बिल्डिंग, रोडक, हरियाणा-124401 ऋण खाता संख्या :- DRBLROH0058854 स्वीकृत ऋण राशि : ₹. 30,80,068/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति मकान नंबर 882, क्षेत्रफल परिमाण 210 वर्ग मीटर, सेक्टर-3, अर्बन एस्टेट, रोडक, हुडा की सीमांतगत, तहसील एवं जिला रोडक (प्रतिभूत आरिस्टियों)।	1) 13-08-2024 2) ₹. 32,23,683/- (ऋण बंदीस लाख चौरस हजार छह सौ चौरस मात्र) 10-07-2024 तक 3) एनपीए तिथि - 04-07-2024
2.	1. श्री मोहित, 2. श्रीमती सुपन सभी का पता :- 1759, कुमार मंडी कच्चा बाजार, अम्बाला कैंट, अम्बाला, हरियाणा-133001 ऋण खाता संख्या :- DRHLAMB00602153 स्वीकृत ऋण राशि : ₹. 13,90,000/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति आईडी सं. 49C66U410, स्थित प्रगति विहार, ग्राम करसन, तहसील अम्बाला कैंट, जिला अम्बाला, हदबल नंबर 103, खेड नंबर 215, खतीनी नंबर 325, खसरा नंबर 8 / / (8-0), खेड नंबर 276, खतीनी नंबर 585, खसरा नंबर 7 / / (8-0), परिमाण 61 वर्ग गज, जो निम्नानुसार परिचय है :- पुरख : मुजा 10 फीट तथा अन्ना की भूमि, परिमाण : मुजा 10 फीट तथा रोड, उत्तर : मुजा 55 फीट तथा सीमा का मकान, दक्षिण : मुजा 10 फीट तथा अन्ना का मकान (प्रतिभूत आरिस्टियों)	1) 19-07-2024 2) ₹. 14,83,414/- (ऋण चौरस लाख तिरसी हजार सात सौ अठारह तथा पैसे सत्तीसी मात्र) 04-05-2024 तक 3) एनपीए तिथि - 04-05-2024
3.	1. श्री विनय निखान, 2. श्रीमती दीपिका सभी का पता :- 2259, वसंत विहार, कालका, हरियाणा-133032 ऋण खाता संख्या :- DRHLPU000461774 स्वीकृत ऋण राशि : ₹. 14,50,000/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट परिमाण 2 बिस्व, जो ग्राम : तामवा हरवाहा (हरवाहा नंबर 143), एच. सी. पंचकुला (कालका जोन), तहसील : कालका, जिला पंचकुला, कालका में स्थित खेड/खतीनी नंबर 3/3, खसरा नंबर 177(6-18) किल्ले (पीसेन्)-1 में शामिल भूमि परिमाण 6 बीघे 18 बिस्व का 2/138 हिस्सा है। (प्रतिभूत आरिस्टियों)	1) 29-07-2024 2) ₹. 13,80,778.87/- (ऋण तेरह लाख पचास हजार सात सौ अठारह तथा पैसे सत्तीसी मात्र) 29-07-2024 तक 3) एनपीए तिथि - 04-07-2024

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे खान के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अवसर चुकने पर अवरोधकारी उपरोक्त प्रतिभूतियों के निरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बकाया होगा। आपका ध्यान प्रख्यात अधिकारों को धुंधले के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की धारा (6) के अधिनियम की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया नोट करें कि चूक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आप हमारी सहमति के बिना, उपरि-संरचित कोई भी प्रतिभूत आरिस्टि विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 30-08-2024
स्थान : रोडक, अम्बाला, पंचकुला
बारे डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्रतिक्रियण अधिकारी

आप कर्जदार / या तथा सह-कर्जदार / गारंटरों से उपरिखरित बकाया राशि आगे